



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन 1946 (श0)  
(सं0 पटना 171) पटना, बुधवार, 5 मार्च 2025

विधि विभाग

अधिसूचना  
5 मार्च 2025

एस0ओ0 61 दिनांक 5 मार्च 2025—विधि (न्याय) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक—ए0/ए0बी0—01/2000—3324/जे0, दिनांक—07.09.2000 की कंडिका संख्या—3 में बिहार राज्य विधि आयोग हेतु अंशकालीन सदस्यों के चयन (नियुक्ति) का उल्लेख है। सम्प्रति विधि विभाग की अधिसूचना संख्या—5181, दिनांक—22.08.2024 द्वारा बिहार राज्य विधि आयोग की कालावधि का विस्तार दिनांक—22.08.2024 से अगले तीन वर्षों के लिए किया गया है।

बिहार राज्य विधि आयोग, पटना के पत्रांक—वि0आ0स्था0(राज0)—02/2016—182, दिनांक—24.12.2024 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.08.2024 से अगले तीन वर्षों तक के लिए बिहार राज्य विधि आयोग की विस्तारित अवधि हेतु निम्नांकित तीन अंशकालीन सदस्यों का, इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से, चयन (नियुक्ति) किया जाता है:-

1	प्रो0 डा0 अजय कुमार	प्राध्यापक—सह—डीन	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न्याय नगर, मीठापुर, पटना।
2	श्री आशुतोष कुमार	सहायक प्राध्यापक	एमिटि लॉ विद्यालय, एमिटि यूनिवर्सिटी, पटना
3	श्री साकेत तिवारी	अधिवक्ता	पटना उच्च न्यायालय, पटना, सी0एच0—15, रोड नं0—2, एस0के0 नगर, पटना—2

- उपर्युक्त अंशकालीन सदस्यों का चयन (नियुक्ति) इस अधिसूचना की निर्गत की तिथि से आयोग के वर्तमान कार्यकाल अर्थात्—21.08.2027 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक सीमित रहेगा। यह चयन (नियुक्ति) विधि आयोग/राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
- अंशकालीन सदस्यों को आयोग की बैठक में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी का यात्रा भत्ता देय होगा। पटना स्थित आयोग के अंशकालीन सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक मो0—250/— (दो सौ पचास) रुपये परिवहन भत्ता देय होगा।

- (4) अंशकालीन सदस्यों को बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक 5,000/— (पाँच हजार) रूपया मानदेय देय होगा।
- (5) उक्त मानदेय राशि का विकलन बजट "मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल), उपशीर्ष-0006-विधि आयोग के अन्तर्गत-2802-संविदा सेवायें" इकाई से होगा, जिसका विपत्र कोड 27-2014001140006 है।

इस शीर्ष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना होंगे।

(सं०सं०-ए०/बी०डी०जी०ओ०-02/2025-1503/जे०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अंजनी कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 171-571+100-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>